



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2011/पौष 21, 1932

No. 45]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2011/PAUSA 21, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2011

का.आ. 46(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 955(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(बी) के छिन्दवाड़ा बाइपास सेक्शन के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 8 जुलाई, 2010 को “नवभारत” और तारीख 9 जुलाई, 2010 को “दैनिक भास्कर”, में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26(ख) के छिन्दवाड़ा बायपास खंड तक के लिये की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छिन्दवाड़ा	मोहखेड़	अर्जुनवाड़ी	64/2	निजी	असिंचित	0.350	फूल्या पिता उखण्डया मेहरा (सेवा भूमि)
				78/1	निजी	सिंचित	0.050	तिजिया पति जोगीराम किरार
				86/1	निजी	असिंचित	0.020	अजबसिंग, रामस्वरूप, पूसा, सुमेरचन्द पिता सूती किरार
				87/2	निजी	असिंचित	0.090	हेमराज पिता घंसराम किरार
				88	निजी	सिंचित	0.400	मेहतापसिंग पिता भैयालाल, मिलकन पिता भैयालाल किरार
				89/2	निजी	सिंचित	0.070	मेहतापसिंग पिता भैयालाल किरार
				89/3	निजी	सिंचित	0.060	पितरू पिता लल्लू कलार
				90	निजी	सिंचित	0.710	तिजिया पति जोगीलाल किरार
				103/2	निजी	असिंचित	0.150	लखनलाल पिता ताराचंद कलार
				184/1, 184/3	निजी	सिंचित	0.260	पचकोड़ी पिता छउबा साहू
				184/4	निजी	असिंचित	0.170	झीनीबाई पति लक्ष्मण साहू
				187/1	निजी	सिंचित	0.140	पचकोड़ी पिता छउबा
				188	निजी	असिंचित	0.030	दौलत पिता झिंगूजी कुनबी
				367/1	निजी	सिंचित	0.230	तुकाराम पिता जंगल्या कुनबी
				367/3	निजी	असिंचित	0.160	धर्मेन्द्र ना.बा. पिता जगदीश पा. पिता जगदीश, जितेन्द्र ना.बा. पिता व पा. हरीराम पिता सालकराम किरार
				367/4	निजी	असिंचित	0.080	लालवती पिता चुन्नीलाल कलार
				368/1	निजी	असिंचित	0.150	कमलकान्त पिता होरीलाल कलार
				368/2	निजी	असिंचित	0.140	रविकान्त पिता होरीलाल कलार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				369	निजी	असिंचित	0.500	तिलकराम, महेश, सुरेश, लीला*पिता काशीराम, पारवती पति काशीराम कलार
				370	निजी	सिंचित	0.340	भाउराव, केशवराव पिता पाडूरंग, गिरजा विधवा पाडूरंग कुनबी
				372	निजी	असिंचित	0.150	बुल्लो पति पंचम गौड़
				401/22	निजी	सिंचित	0.010	हेमराज पिता ताराचंद किरार
				402/1	निजी	सिंचित	0.750	गोविंद पिता कंगलू कलार
				402/7	निजी	सिंचित	0.010	गोविंद पिता कंगलू कलार
				402/8	निजी	सिंचित	0.050	सुन्दर पिता सालकराम कलार
				402/9	निजी	सिंचित	0.370	श्रीमति गंगाबाई पति हेमराज किरार
				402/11	निजी	असिंचित	0.030	महावती पति लखन किरार
				403/1	निजी	सिंचित	0.020	गोविंद पिता कंगलू
				437/1	निजी	असिंचित	0.700	कुण्डलीक, कैलाशचंद, पवन पिता पदरी, जैनी विधवा पदरी, चन्द्रभागा, कामिनी, इन्द्रा पुत्री पदरी कुनबी
				437/2	निजी	असिंचित	0.170	कमला विधवा इठोवाजी, प्रभाकर, मधुकर, रामनाथ पिता इठोवाजी, कमला, कान्ता, रंजना पिता इठोवाजी, गंगा, बेबी पिता लीलूजी
				438/1	निजी	सिंचित	0.250	कुण्डलीक, कैलाशचंद, पवन पिता पदरी, जैनी विधवा पदरी, चन्द्रभागा, कामिनी, इन्द्रा पुत्री पदरी कुनबी
				443	निजी	सिंचित	0.350	सविता पति लालमन
				495	निजी	असिंचित	0.110	सलमा बेगम विधवा मोहम्मद सईद खां, रिजवानखां पिता सईद खां पा.मां सलमा बेगम विधवा सईद खां, मोहम्मद अतीस खां, मोहम्मद हफीज खां पिता मोहम्मद बहीद खां, बातूनबी विधवा बहीद खां मुसलमान
				496	निजी	असिंचित	0.510	चैतराम पिता टंटू मेहरा
				497/1	निजी	सिंचित	0.230	अफजल खां पिता गुलबाज खां मुसलमान
				497/2	निजी	असिंचित	0.060	अबरार खां पिता गुलबाज खां मुसलमान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				498/2	निजी	सिंचित	0.070	अबरार खां पिता गुलबाज खां मुसलमान
				498/3	निजी	सिंचित	0.140	अफजल खां पिता गुलबाज खां मुसलमान
				502/1	निजी	असिंचित	0.015	अहमदखं पिता इसराइलखां
				64/1	शासकीय	पहाड़ चट्टान	1.700	म.प्र. शासन
				183, 494	शासकीय	रास्ता	0.080	म.प्र. शासन
				424	शासकीय	रास्ता	0.040	म.प्र. शासन
				439	शासकीय	पहाड़ चट्टान	0.740	म.प्र. शासन
				440/1	शासकीय	छोटे झाड़ का जंगल	0.260	म.प्र. शासन
				444	शासकीय	रास्ता	0.040	म.प्र. शासन
				योग			10.955	

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईवू/सीएचडब्ल्यू/एलए/2010]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2011

S.O. 46(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 955(E), dated the 26th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) on the stretch of land of Chhindwara Bypass Section in District Chhindwara, in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nav Bharat”, dated the 08th July, 2010 and in “Dainik Bhaskar”, dated the 09th July, 2010 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE								
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of Land of Chhindwara Bypass Section of NH- 26(B) in District Chhindwara and in the State of Madhya Pradesh.								
Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Chhindwara	Mohkhed	Arjunwari	64/2	Private	Non-Irrigated	0.350	Fusya S/o Ukhandya Mehra (Seva Bhumi)
				78/1	Private	Irrigated	0.050	Tijiya W/o Jogiram Kirar
				86/1	Private	Non-Irrigated	0.020	Ajabsing, Ramswarup, Pusa, Sumerchand S/o Surti Kirar
				87/2	Private	Non-Irrigated	0.090	Hemraj S/o Ghansram Kirar
				88	Private	Irrigated	0.400	Mehtapsing S/o Bhiyalal, Milkan D/o Bhiyalal Kirar
				89/2	Private	Irrigated	0.070	Mehtapsing S/o Bhiyalal Kirar
				89/3	Private	Irrigated	0.060	Pitru S/o Lallu Kalar
				90	Private	Irrigated	0.710	Tijiya W/o Jogilal Kirar
				103/2	Private	Non-Irrigated	0.150	Lakhanlal S/o Tarachand Kalar
				184/1, 184/3	Private	Irrigated	0.260	Pachkodi S/o Chhauba Sahu
				184/4	Private	Non-Irrigated	0.170	Jhini Bai W/o Laxman Sahu
				187/1	Private	Irrigated	0.140	Pachkodi S/o Chhauba Sahu
				188	Private	Non-Irrigated	0.030	Daulat S/o Jhingui Kunbi
				367/1	Private	Irrigated	0.230	Tukaram S/o Jangliya Kunbi
				367/3	Private	Non-Irrigated	0.160	Dharmendra Minor S/o Jagdish Guardian Father Jagdish, Jitendra Minor Father and Guardian Hariram S/o Salakram Kirar
				367/4	Private	Non-Irrigated	0.080	Lalwati D/o Chunnilal Kalar
				368/1	Private	Non-Irrigated	0.150	Kamalkant S/o Horilal Kalar
				368/2	Private	Non-Irrigated	0.140	Ravikant S/o Horilal Kalar
				369	Private	Non-Irrigated	0.500	Tilakram, Mahesh, Suresh S/o Kashiram, Leela D/o Kashiram, Parwati W/o Kashiram Kalar
				370	Private	Irrigated	0.340	Bhaurao, Keshavrao S/o Pandurang, Girja Widow Pandurang Kunbi
				372	Private	Non-Irrigated	0.150	Bullo W/o Pancham Gond

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				401/22	Private	Irrigated	0.010	Hemraj S/o Tarachand Kirar
				402/1	Private	Irrigated	0.750	Govind S/o Kanglu Kalar
				402/7	Private	Irrigated	0.010	Govind S/o Kanglu Kalar
				402/8	Private	Irrigated	0.050	Sundar S/o Salakram Kalar
				402/9	Private	Irrigated	0.370	Smt. Gangabai W/o Hemraj Kirar
				402/11	Private	Non- Irrigated	0.030	Mahawati W/o Lakhan Kirar
				403/1	Private	Irrigated	0.020	Govind S/o Kanglu
				437/1	Private	Non- Irrigated	0.700	Kundlik, Kailashchand, Pawan S/o Pandhri, Jaini Widow Pandhri, Chandrabhaga, Kamini, Indra D/o Pandhri Kunbi
				437/2	Private	Non- Irrigated	0.170	Kamla Widow Ithovaji, Prabhakar, Madhukar, Ramnath S/o Ithovath, Kamla, Kanta, Ranjna D/o Ithovaji Ganga, Bebi S/o Liluji
				438/1	Private	Irrigated	0.250	Kundlik, Kailashchand, Pawan S/o Pandhri, Jaini Widow Pandhri, Chandrabhaga, Kamini, Indra D/o Pandhri Kunbi
				443	Private	Irrigated	0.350	Savita W/o Lalman Mehra
				495	Private	Non- Irrigated	0.110	Salma Begum Widow Mohammad Shaid Khan, Rijwan Khan S/o Shaid Khan Guardian Mother Salama Begum Widow Shaid Khan Mohammad Atis Khan, Mohammad Hafij Khan S/o Mohammad Bahid Khan, Batunbi Widow Bahid Khan Muslman
				496	Private	Non- Irrigated	0.510	Chaitram S/o Tantu Mehra
				497/1	Private	Irrigated	0.230	Afzal khan S/o Gulbaj khan Musalman
				497/2	Private	Non- Irrigated	0.060	Abrar Khan S/o Gulbaj Khan Musalman

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				498/2	Private	Irrigated	0.070	Abrar Khan S/o Gulbaj Khan Musalman
				498/3	Private	Irrigated	0.140	Afzal khan S/o Gulbaaj khan Musalman
				502/1	Private	Non- Irrigated	0.015	Ahmed Khan S/o Israil Khan
				64/1	Govt.	Pahd, Chattan	1.700	M.P. Govt.
				183, 494	Govt.	Rasta	0.080	M.P. Govt.
				424	Govt.	Rasta	0.040	M.P. Govt.
				439	Govt.	Pahd, Chattan	0.740	M.P. Govt.
				440/1	Govt.	Chhote Jhhad Ka jangal	0.260	M.P. Govt.
				444	Govt.	Rasta	0.040	M.P. Govt.
				Total			10.955	

[E.No. NHA/PIU/CHW/LA/2010]

S. NARENDRA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2011

का.आ. 47(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 955(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(बी) के छिन्दवाड़ा बाइपास सेक्शन के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 8 जुलाई, 2010 को "नवभारत" और तारीख 9 जुलाई, 2010 को "दैनिक भास्कर", में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26(ख) के छिन्दवाड़ा बायपास खंड तक के लिये की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	गुरैया	51/1 A	निजी	सिंचित	0.110	हीराजी पिता रामलाल गोंड
				53/1	निजी	सिंचित	0.520	रामसिंग पिता हीराजी, उर्मिला ग्यानसिंग, विवेक, आनन्द ना.बा. पिता ग्यानसिंग पा.मां उर्मिला विधवा ग्यानसिंग, काजल ना.बा. पिता ग्यानसिंग पा.मा.
				53/2	निजी	सिंचित	0.370	धीरसिंग, भूरसिंग, पतालसिंग पिता लालजी, सुलोचना, कृष्णा, संगीता पिता लालजी गोंड
				53/3	निजी	सिंचित	0.520	सांवली, सुमित्रा विधवाएं गणेशलाल, बिर्री, मेमवती, शर्मिला, सुरमा पिता गणेशलाल, चन्द्रसिंह पिता गणेशलाल, अजय, विजय, पिता हेमराज गोंड
				53/4	निजी	सिंचित	0.150	मंगोबाई विधवा जंगलू, धरमसिंह, धरमू, अन्नू पिता जंगलू, बिसरो, झूलवती, सुन्दर, लौंगवती, धरमा बाई, श्यामवती पिता जंगलू गोंड
				53/7	निजी	सिंचित	0.080	भूरसिंह पिता लालजी गोंड
				64/1	निजी	असिंचित	0.270	कविता पति काशीनाथ डिगरसे
				64/2A	निजी	असिंचित	0.220	अजय कुमार पिता बद्री विशाल ब्राम्हण
				64/2B	निजी	सिंचित	0.270	सावित्री पति जमुनाप्रसाद जायसवाल
				64/4B	निजी	सिंचित	0.330	दामोदर पिता तुलाराम कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				64/5	निजी	असिंचित	0.150	अजय कुमार पिता बंदी विशाल. ब्राम्हण
				65	निजी	सिंचित	0.330	भददूजी पिता किसनाजी
				66	निजी	सिंचित	0.300	श्रीमति ईठा विधवा किसनाजी, भददू पंजाब, अजाब पिता किसनाजी कुम्भी
				67/1	निजी	असिंचित	0.070	श्रीमति कंचन पति विनोद लोखंडे
				67/2	निजी	असिंचित	0.002	पूरनलाल पिता चुन्नी चमार
				89	शासकीय	पहाड चट्टान	0.040	म.प्र.शासन
				90/1	निजी	सिंचित	0.900	गिरजाबाई पति मथुराप्रसाद ब्राम्हण
				101/1	निजी	सिंचित	0.016	अजय कुमार पिता बंदी विशाल ब्राम्हण
				101/2	निजी	सिंचित	0.650	चन्द्राबाई पति अनूपकुमार, अंकुर, अंशुल, अनुभव पिता अनूपकुमार ब्राम्हण
				101/3	निजी	सिंचित	0.450	अशोक कुमार पिता बंदी विशाल ब्राम्हण
				104/1	निजी	सिंचित	0.360	हेमकुमार पिता उदेराम
				104/2	निजी	असिंचित	0.020	हेमकुमार पिता उदेराम, देशरानी विधवा छगनलाल, संजय, संदीप, सुरेन्द्र पिता छगनलाल बनिया
				104/3	निजी	सिंचित	0.120	देशरानी विधवा छगनलाल, संजय, सुरेन्द्र पिता छगनलाल, सविता पुत्री छगनलाल बनिया
				104/4	निजी	सिंचित	0.460	हेमकुमार पिता उदेराम बनिया
				106	निजी	सिंचित	0.750	देशरानी विधवा छगनलाल, संजय, सुरेन्द्र पिता छगनलाल, सविता पुत्री छगनलाल बनिया
				52	शासकीय	रास्ता	0.080	म.प्र.शासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				63	शासकीय	नाला	0.080	म.प्र.शासन
				88	शासकीय	रास्ता	0.060	म.प्र.शासन
				92	शासकीय	रास्ता	0.030	म.प्र.शासन
				100	शासकीय	नाला	0.080	म.प्र.शासन
				105	शासकीय	रास्ता	0.050	म.प्र.शासन
				109	शासकीय	नाला	0.170	म.प्र.शासन
					योग		8.008	

[फा. सं. भारराप्रा/पीआईयू/सीएचडब्ल्यू/एलए/2010]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2011

S.O. 47(E). -Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 955(E), dated 26th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) on the stretch of land of Chhindwara Bypass Section in District Chhindwara, in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Nav Bharat", dated the 8th July, 2010, and in "Dainik Bhaskar", dated the 9th July, 2010, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land of Chhindwara Bypass Section of NH- 26(B) in District Chhindwara in the State of Madhya Pradesh.								
Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (In hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhindwara	Chhindwara	Guraiya	51/1A	Private	Irrigated	0.110	Heeraji S/o Ramlal Gond
				53/1	Private	Irrigated	0.520	Ramsing S/o Heeraji, Urmila, Gyansing, Vivek, Anand Minor S/o Gyansing Gaurdian Mother Urmila Widow Gyansing, Kajal Minor D/o Gyansing Guardian Mother Urmila Widow Gyansing
				53/2	Private	Irrigated	0.370	Dheersing, Bhoorsing, Patahsing S/o Lalji, Sulochna, Krishna, Sangeeta D/o Lalji Gond
				53/3	Private	Irrigated	0.520	Sonvli, Sumitra Widow Ganeshlal, Birri, Memvati, Sharmila, Surma D/o Ganeshlal, Chandrasingh S/o Ganesh Lal, Ajay, Vijay S/o Hemraj Gond
				53/4	Private	Irrigated	0.150	Mango Bai Widow Janglu, Dharamsingh, Dharmu, Annu S/o Janglu, Bisro, Jhulwati, Sundar, Loungwati, Dharma Bai, Shyamwati D/o Janglu Gond
				53/7	Private	Irrigated	0.080	Bhuresingh S/o Lalji Gond
				64/1	Private	Non-Irrigated	0.270	Kavita W/o Kashinath Digarse
				64/2 A	Private	Non-Irrigated	0.220	Ajay Kumar S/o Badri Vishal Brahman
				64/2B	Private	Irrigated	0.270	Savitri W/o Jamunaprasad Jayaswal
				64/4B	Private	Irrigated	0.330	Damodar S/o Tularam Kunbi
				64/5	Private	Non-Irrigated	0.150	Ajay Kumar S/o Badri Vishal Brahman
				65	Private	Irrigated	0.330	Bhadduji S/o Kisanji
				66	Private	Irrigated	0.300	Smt. Itha Widow Kisanji, Bhaddu, Panjab, Ajab S/o Kisanji Kunbi
				67/1	Private	Non-Irrigated	0.070	Smt. Kanchan W/o Vinod Lokhande
				67/2	Private	Non-Irrigated	0.002	Puranlal S/o Chunni Chamar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				89	Govt.	Pahad Chattan	0.040	M.P. Govt.
				90/1	Private	Irrigated	0.900	Girjabai W/o Mathuraprasad Bramhman
				101/1	Private	Irrigated	0.016	Ajay Kumar S/o Badri Vishal Brahman
				101/2	Private	Irrigated	0.650	Chandra Bai W/o Anupkumar, Ankur, Anshul, Anubhav S/o Anupkumar Brahman
				101/3	Private	Irrigated	0.450	Ashok Kumar S/o Badri Vishal Brahman
				104/1	Private	Irrigated	0.360	Hemkumr S/o Uderam
				104/2	Private	Non- Irrigated	0.020	Hemkumar S/o Uderam, Deshrani Widow Chhaganlal, Sanjay, Sandeep, Surendra S/o Chhaganlal Baniya
				104/3	Private	Irrigated	0.120	Deshrani Widow Chhaganlal, Sanjay, Surendra S/o Chhaganlal, Savita D/o Chhaganlal Baniya
				104/4	Private	Irrigated	0.460	Hemkumar S/o Uderam Baniya
				106	Private	Irrigated	0.750	Deshrani Widow Chhaganlal, Sanjay, Surendra S/o Chhaganlal, Savita D/o Chhaganlal Baniya
				52	Govt.	Rasta	0.080	M.P. Govt.
				63	Govt.	Nala	0.080	M.P. Govt.
				88	Govt.	Rasta	0.060	M.P. Govt.
				92	Govt.	Rasta	0.030	M.P. Govt.
				100	Govt.	Nala	0.080	M.P. Govt.
				105	Govt.	Rasta	0.050	M.P. Govt.
				109	Govt.	Nala	0.170	M.P. Govt.
					Total		8.008	

[F. No. NHAI/PIU/CHW/LA/2010]

S. NARENDRA, Director